

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 54]

नई दिल्ली सोमवार, अप्रैल 10, 1967/चैत्र 20, 1889

No. 54]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 10, 1967/CHAITRA 20, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

New Delhi, the 10th April 1967

No. 28(63)Plant(A)/66.—In paragraph 4 of the Ministry of Commerce Resolution No. 28(63)Plant(A)/66 dated the 9th January, 1967 published in the Gazette of India Extraordinary dated the 9th January, 1967 for the words "three months from the date of its appointment", the words "the 30th September 1967" shall be substituted.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

B. N. BANERJI, Spl. Secy.

